



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 150

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 1969/भाद्र 5, 1891

No. 150]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 1969/BHADRA 5, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 27th August 1969

G.S.R. 2095.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts organic surface-active agents (other than soap) and surface-active preparations (whether or not containing soap), falling under Item No. 15AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon, if such organic surface-active agents or surface-active preparations, as the case may be, satisfy the following condition, namely :—

The difference between the surface tension value of distilled water and the surface tension value as determined by stalagmometer of the liquid obtained by treating one gramme of the organic surface-active agent or the surface-active preparation, as the case may be, with 100 millilitres of distilled water is not more than 20 dynes per centimeter at the same temperature.

[No. 208/69-F. No. 14/4/67-CX-III.]

K. NARASIMHAN Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1969.

अधिसूचना

(केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सा० का० नि० 2095-A-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944, के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15 कक के अन्तर्गत आने वाले आर्गेनिक सर्फेस एक्टिव कारकों (साबुन को छोड़ कर) और सर्फेस एक्टिव निमित्तियों (चाहे उन में साबुन अन्तर्विष्ट हो अथवा न हो) को, यदि यथास्थिति ऐसे सर्फेस एक्टिव कारक या सर्फेस एक्टिव निमित्तियों निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हों, उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है, अर्थात् :—

आसुत जल की सर्फेस टेनशन वैल्यू, और यथास्थिति एक ग्राम आर्गेनिक सर्फेस एक्टिव कारक या सर्फेस एक्टिव निमित्त को 100 मिलिलीटर आसुत जल से अभिक्रियागत करने पर अभिप्राप्त द्रव की, स्टैलैगोमीटर द्वारा अवधारित, सर्फेस टेनशन वैल्यू में एक ही तापमान पर 20 डाइन प्रति सेण्टीमीटर से अधिक अन्तर न हो।

सं० 208/69

स 208/69-फा० सं० 14-4-67—सी एक्स III

के० नरसिंहन, संयुक्त सचिव,